



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 14]

नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 7—अप्रैल 13, 2007 (चैत्र 17, 1929)

No. 14]

NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 7—APRIL 13, 2007 (CHAITRA 17, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 26 मार्च 2007

सं. आर.एस./3(i)/2007/26-कार्मिक--राज्य सभा के माननीय सभापति ने राज्य सभा सचिवालय में अवर सचिव श्री चन्द्र भान राय को 23 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक इस सचिवालय में तदर्थ आधार पर उप सचिव के ग्रेड में नियुक्त किया है।

2. श्री जिम्बा ग्याछे नेगी, जिन्हें दिनांक 5 फरवरी, 2007 की अधिसूचना सं. आर.एस./3(i)/2007/15-कार्मिक द्वारा तदर्थ आधार पर उप सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, को अब 23 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक उक्त ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया है।

3. उपर्युक्त नियुक्तियां रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आर.एस./3(i)/2007/27-कार्मिक--श्री मंगत राय वर्मा, जिन्हें इससे पहले अधिसूचना सं. आर.एस./3(i)/2006/77-कार्मिक दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 द्वारा तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 23 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटारे के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होंगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

सं. आर.एस./3(i)/2007/28-कार्मिक--श्री विजय कुमार, जिन्हें इससे पहले अधिसूचना सं. आर.एस./3(i)/2006/78-कार्मिक दिनांक 30 अक्टूबर, 2006 द्वारा तदर्थ आधार पर विधायी/समिति/अधिशासी/नयाचार अधिकारी के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था, अब 23 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से अगामी आदेशों तक उस ग्रेड में नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है।

2. उपर्युक्त नियुक्ति रिट याचिका सं. 3025/88 के अंतिम निपटान के समय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों के अधधीन होगी।

एग्नेस मोमिन जार्ज, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2007

सं. ए-44011/4/2000-प्रशासन-I--आर्थिक कार्य विभाग के दिनांक 07.03.2007 के आदेश सं. 11016/5/2000-आई.ई.एस. के अनुपालन में आई.ई.एस. के जे.ए.जी. अधिकारी तथा योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (मुख्यालय) में उप सलाहकार, श्री आर. सी. डे को दिनांक 01.02.2007 से 14,300-400-18,300/- रु. के वेतनमान में एन.एफ.एस.जी. प्रदान की जाती है।

2. आई.ई.एस. के एन.एफ.एस.जी. मिलने पर उनके द्वारा धारित उप सलाहकार के पद को उनके लिए वैयक्तिक रूप से उन्नयन करते हुए उन्हें निदेशक का पदनाम दिया जाता है।

3. श्री डे को एन.एफ.एस.जी. प्रदान किया जाना, श्री नागेश सिंह और एक अन्य बनाम श्री बी. डी. विर्दी और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित सन् 2004 की सिविल अपील सं. 1366-1367 में अंतिम आदेशों के अधधीन रहेगा।

अनिल मल्होत्रा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 15 मार्च 2007

सं. ए-12025/01/2005-प्रशा-II--राष्ट्रपति, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, नई दिल्ली के अधीनस्थ सांख्यिकी सेवाएं प्रभाग के सांख्यिकी अधिकारी सर्वश्री इन्द्रेक्ष चन्द्र काला और पी.वी.सी.वी. प्रभु दास को योजना आयोग में दिनांक 13.03.2007 (पूर्वाह्न) से अनुसंधान अधिकारी के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में पूर्णतः तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पर एक साल के लिए या जब तक पद नियमित रूप से भरा जाए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

सं. ए-43014/01/2006-प्रशा-II--योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारी के रूप में तैनाती, तथा आईईएस के ग्रेड-IV में पदोन्नति होने के परिणामस्वरूप आर्थिक मामले विभाग के दिनांक 18.1.2006 के आदेश सं. 11016-3-2004-आईईएस के तहत श्री एस. रॉय ने योजना आयोग में 8000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अनुसंधान अधिकारी के रूप में दिनांक 12 मार्च, 2007 (पूर्वाह्न) से कार्य ग्रहण कर लिया है।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2007

सं. ए-19015/1/95-प्रशा-V--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के दिनांक 9 मार्च, 2007

के आदेश सं. 5/1/2007-सीएस.I (डैस्क) के अनुसरण में, योजना आयोग में अनुभाग अधिकारी श्री के. एस. महाजन की सेवाएं पूर्णतः तदर्थ आधार पर अवर सचिव (सीएसएस के ग्रेड-I) की नियुक्ति के रूप में दिनांक 21.03.2007 की पूर्वाह्न से उच्चतर एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग को सौंपी जाती हैं।

एन. के. शर्मा, अवर सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2007

सं. I-11014/10/2006-आईपीएस.IV--भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पश्चिम बंगाल सरकार एवं गृह मंत्रालय के यूटी प्रभाग की सहमति से केन्द्रीय सरकार, श्री मधुर वर्मा, भा.पु.से. (प. बं. : 2005) द्वारा सुश्री निहारिका राय, भा.प्र.से. (एजी एमयूटी : 2005) से विवाह किए जाने के आधार पर श्री मधुर वर्मा, भा.पु.से. (प.बं. : 2005) को एतद्वारा पश्चिम बंगाल के भा.पु.से. संवर्ग से एजीएमयूटी के भा.प्र.से. संवर्ग में स्थानांतरित करती है।

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 13 मार्च 2007

सं. 1/14/2003-प्रशा.--राष्ट्रपति, श्री बी. वनलालवावना, आई एफ एस (98) को उप सचिव स्तर पर, पंचायती राज, युवा मामले और खेल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणिशंकर अय्यर) के निजी सचिव के रूप में 12.03.2007 (पूर्वाह्न) से विदेश मंत्रालय से स्थानांतरण पर कार्यभार संभालने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि या जब तक वह मंत्री के निजी सचिव पद पर आसीन हैं या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सुरेन्द्र कुमार नय्यर, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2007

सं. ए-32013/2/2007-प्रशा.I(जी)--राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री के. सुरेश कुमार को दिनांक 31 जनवरी, 2007 (पूर्वाह्न) से, अगले आदेशों तक, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग में 10,000-325-15,200/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर अवर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. यह तदर्थ पदोन्नति उन्हें इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने अथवा ग्रेड-I में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

एन. के. पुष्पाकरण, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 2007

सं. 14015/05/2006-अ.भा.से.-I(क)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1997 के विनियम 7 के उप

विनियम (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा वर्ष 2006 के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के छत्तीसगढ़ संवर्ग में वर्तमान 1 (एक) रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई छत्तीसगढ़ राज्य की गैर राज्य सिविल सेवा के सदस्य श्री आलोक अवस्थी (जन्म तिथि : 17.07.1959) के नाम वाली वर्ष 2006 की चयन सूची का अनुमोदन कर दिया है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/05/2006-अ.भा.से.-I(ख)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ के गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारी श्री आलोक अवस्थी को भारतीय प्रशासनिक सेवा में परिवीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उनको छत्तीसगढ़ संवर्ग आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/19/2006-अ.भा.से.-I(क)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (चयन द्वारा नियुक्ति) विनियम 1997 के विनियम 7 के उप विनियम (1) में निहित प्रावधानों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के राजस्थान संवर्ग में वर्ष 2006 के दौरान वर्तमान 4 रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा 27 एवं 28 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई राजस्थान राज्य की गैर सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों के नामों वाली वर्ष 2006 के चयन सूची का अनुमोदन कर दिया है :--

चयन सूची-2006

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	एस. एस. बिस्सा	11.07.1952
2.	विनोद पांड्या	20.06.1952
3.	ओंकार सिंह	13.07.1956
4.	अर्जुन राम मेघावल (अनुसूचित जाति)	20.12.1953

2. वर्ष, 2006 की चयन सूची में उपर्युक्त अधिकारियों का नाम राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर बैंच के समक्ष लम्बित डी.बी.सी. डब्ल्यू. पी. सं. 10050/06 (डॉ. कल्याण सहाय शर्मा बनाम भारत संघ तथा अन्य) के नतीजे के अधधीन शामिल होगा।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/19/2006-अ.भा.से.-I(ख)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा

(चयन द्वारा नियुक्ति) विनियमावली 1997 के विनियम 8 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली 1954 के नियम 8 के उप नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति राजस्थान के निम्नलिखित गैर-राज्य सिविल सेवा के अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश होने तक परिवीक्षा पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए नियुक्त करते हैं तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के अंतर्गत उनको राजस्थान संवर्ग आबंटित करते हैं :--

क्र. सं. नाम

(सर्व/श्री)

1. एस. एस. बिस्सा
2. विनोद पांड्या
3. ओंकार सिंह
4. अर्जुन राम मेघावल (अनुसूचित जाति)

2. उपर्युक्त अधिकारियों की नियुक्ति राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर बैंच के समक्ष लम्बित डी.बी.सी.डब्ल्यू. पी. सं. 10050/60/ (डॉ. कल्याण सहाय शर्मा बनाम भारत संघ तथा अन्य) के नतीजे के अधधीन होगी।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/16/2006-अ.भा.से.-I(क)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के नागालैंड संवर्ग में वर्ष 2006 के दौरान हुई 04 (चार) रिक्तियों को भरने के लिए दिनांक 20 दिसम्बर, 2006 को आयोजित बैठक में चयन समिति द्वारा तैयार की गई नागालैंड राज्य के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों के नामों वाली वर्ष 2006 के चयन सूची अनुमोदित कर दी है :--

चयन सूची 2006

क्र. सं.	नाम	जन्म तिथि
	(सर्व/श्री)	
1.	नोरमेन पुत्सुरे (अनुसूचित जाति)	01.01.1954
2.	बी. थावेंग कोनयाक (अनुसूचित जाति)	07.12.1952
3.	एल. डोनियल लोंगचर (अनुसूचित जाति)	01.12.1952
4.	श्रीमती मोलिमला पोंगइनर (अनुसूचित जाति)	01.03.1953

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/16/2006-अ.भा.से.-I(ख)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1954 के विनियम 9 के उप विनियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परिवीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते

हुए राष्ट्रपति, नागालैंड के राज्य सिविल सेवा के निम्नलिखित सदस्यों को वर्ष 2006 की रिक्तियों पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत उन्हें नागालैंड संवर्ग में आबंटित करते हैं :—

क्र. सं. अधिकारी का नाम

(सर्व/श्री)

1. नोरमेन पुत्सुरे (अनुसूचित जाति)
2. बी. थावेंग कोनयाक (अनुसूचित जाति)
3. एल. डोनियल लॉगचर (अनुसूचित जाति)
4. श्रीमती मोलिमला पोंगइनर (अनुसूचित जाति)

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/03/2006-अ.भा.से.-I(क)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित प्रावधानों के अनुसार, संघ लोक सेवा आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष, 2006 के दौरान हुई 01 (एक) रिक्ति को भरने के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 26 अक्टूबर, 2006 को हुई अपनी बैठक में तैयार की गई मेघालय राज्य की राज्य सिविल सेवा की एक सदस्य श्रीमती अरलिन एम. संगमा (एस.टी.), (जन्म तिथि : 07.12.1955) के नाम वाली संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के मेघालय घटक के लिए वर्ष 2006 की चयन सूची अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/03/2006-अ.भा.से.-I(ख)--राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उप नियम (1) और भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के मेघालय राज्य सिविल सेवा की एक सदस्य श्रीमती अरलिन एम. संगमा (एस.टी.) को वर्ष, 2006 की रिक्ति पर भारतीय प्रशासनिक सेवा में तत्काल प्रभाव से अगले आदेशों तक परीक्षा पर नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप नियम (1) के तहत, संयुक्त असम-मेघालय संवर्ग के मेघालय घटक में उनका आबंटन करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

दिनांक 22 मार्च 2007

सं. 14015/23/2006-अ.भा.से.-I(क)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 7 के उप विनियम (3) में विहित उपबंधों के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग

ने, भारतीय प्रशासनिक सेवा में वर्ष 2006 के दौरान हुई 02 (दो) रिक्तियों को भरने के लिए चयन समिति द्वारा दिनांक 30 दिसम्बर, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में तैयार की गई उत्तराखंड राज्य की राज्य सिविल सेवा के सर्वश्री सुवर्धन (अ.जा.) (जन्म तिथि : 19.06.1953) और दरबान सिंह गरबियाल (अ.ज.जा.) (जन्म तिथि : 02.02.1957) अधिकारियों के नामों वाली उत्तराखंड संवर्ग के लिए वर्ष 2006 के चयन सूची अनुमोदित कर दी है।

जगन लाल, अवर सचिव

सं. 14015/23/2006-अ.भा.से.-I(ख)--भारतीय प्रशासनिक सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियमावली, 1955 के विनियम 9 के उप विनियम (1) तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा (परीक्षा) नियमावली, 1954 के नियम 3 के साथ पठित भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति, उत्तराखंड राज्य सिविल सेवा के सर्वश्री सुवर्धन (अ.जा.) और दरबान सिंह गरबियाल (अ.ज.जा.) अधिकारियों को वर्ष 2006 की रिक्तियों पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा में परीक्षा पर तत्काल प्रभाव से, अगले आदेशों तक नियुक्त करते हैं और भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 5 के उप-नियम (1) के तहत उन्हें उत्तराखंड संवर्ग में आबंटित करते हैं।

जगन लाल, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2007

सं. 23012/02/2007-अ.भा.से.-III--सिविल सेवा परीक्षा, 2002 और भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम-मेघालय संवर्ग से सेवा शुरू करने के आधार पर श्रीमती अवन्तिका गौतम, भा.प्र.से. (ए.एम. : 2003) को "अवन्तिका गौतम" से अपना नाम बदलकर "अवन्तिका सिंह औलख" करने की अनुमति दी जाती है। सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए उनका नाम तदनुसार श्रीमती अवन्तिका सिंह औलख के रूप में जाना जाएगा।

जी. सी. पाण्डेय, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 जनवरी 2007

सं. क्यू/पीए-1/6/2007--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के वर्तमान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को इसी सेवा के ग्रेड-IV में 2 जनवरी, 2007 पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं :—

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	प्रोन्नति के बाद ग्रेड
श्री रुद्रेन्द्र टण्डन	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-4

2. उपर्युक्त अधिकारी को भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में 02.01.2007 (पूर्वाह्न) से नियुक्ति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के

दिनांक 15 जुलाई, 1985 के का. जा. सं. 8/4/84-स्था. (वेतन-I) के अनुसार प्रोफार्मा प्रोन्नति के आधार पर की गई है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 14 फरवरी 2007

सं. क्यू/पीए-1/10/2007--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के वर्तमान कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारी को इसी सेवा के ग्रेड-IV में दिनांक 1 जनवरी, 2007 के पूर्वाह्न से स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

अधिकारी का नाम	वर्तमान ग्रेड	प्रोन्नति के बाद ग्रेड
श्री योगेश्वर सांगवान	भारतीय विदेश सेवा का कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	भारतीय विदेश सेवा का ग्रेड-4

2. भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV में प्रोन्नति होने पर उक्त अधिकारी ने दिनांक 01.01.2007 को पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड का पदभार त्याग दिया और उसी तारीख के पूर्वाह्न से भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-IV का पदभार संभाल लिया।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 1 मार्च 2007

सं. क्यू/पीए-1/11/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री नवलुक तुआन खानखुप, प्योंगयांग, कोरिया लोकतांत्रिक जन गणराज्य में भारत के राजदूत, दिनांक 28 फरवरी, 2007 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा के भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-III से सेवानिवृत्त हो गए।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

सं. क्यू/पीए-1/12/2007--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री निरूपम सेन, भारत के स्थायी मिशन, न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत/स्थाई प्रतिनिधि दिनांक 28 फरवरी, 2007 को अपराह्न में भारतीय विदेश सेवा ग्रेड-I से सेवानिवृत्त हो गए।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

दिनांक 8 मार्च 2007

सं. क्यू/पीए-1/16/2007--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के ग्रेड-II की अधिकारी श्रीमती लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी को इस सेवा के ग्रेड-I में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए दिनांक 23 फरवरी, 2007 के पूर्वाह्न से नियुक्त करते हैं।

2. श्रीमती लक्ष्मी मुद्देश्वर पुरी की 23.2.2007 (पूर्वाह्न) से भा.वि. सं. के ग्रेड-I में नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय के दिनांक 15 जुलाई, 1985 के का. जा. सं. 8/4/84-स्था. (वेतन-I) की शर्तों के अनुरूप प्रोफार्मा प्रोन्नति के आधार पर की जाती है।

अरिंदम बागची, उप सचिव (एफ एस पी)

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2007

सं. 1 (एफ. सं. 3/36/2006-आरई)--इस विभाग की अधिसूचना एफ. सं. 5/37/सीएम/2000 दिनांकित 2 मार्च, 2004 के अनुक्रम में राष्ट्रपति, श्री एस. जे. परमार, उप-विधायी सलाहकार (गुजराती), राजभाषा स्कंध, विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, नई दिल्ली की प्रतिनियुक्ति अवधि को प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में पंजीयक के पद पर (12,000-375-16,500/- रुपये) प्रतिनियुक्ति आधार पर दिनांक 24.03.2007 से और एक वर्ष की अवधि के लिए या श्री परमार के स्थायी आधार पर पंजीयक के पद पर प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण, मुंबई में समाविष्ट होने तक, जो भी पहले हो, बढ़ाते हैं।

सुरजीत सिंह, निदेशक (यूटीआई एवं जेपीसी)

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2007

सं. ए-12026/5/2005-प्रशा.1--राष्ट्रपति, श्रीमती मीना अग्रवाल, आईआरएस (1981) को, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 07 मार्च, 2007 के अपराह्न से पांच वर्ष अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए संयुक्त सचिव (का.) के रूप में नियुक्त करते हैं।

मीताली घोष, अवर सचिव

कम्पनी कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 2 मार्च 2007

सं. पीएफजी(928)/07-प्रशा.1--व्यय विभाग, मुख्य सलाहकार के कार्यलय के लागत कार्यलय आदेश सं. 22012/2/2007/सीएसी दिनांक 29 जनवरी, 2007 के अनुसरण में श्री जी. जी. मित्रा, उपनिदेशक ने दिनांक 15.02.2007 के पूर्वाह्न से कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपनिदेशक का कार्यभार संभाल लिया है।

एन. के. विग, अवर सचिव

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

विदेश व्यापार महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2007

सं. 04/2007 (फा. सं. ए-12025/2/2004-एचआरडी-1/1449)--सिविल सेवा परीक्षा 2005 के परिणामों के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा उनके चयन के फलस्वरूप और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा भारतीय व्यापार सेवा संवर्ग में उनके नामांकन के बाद राष्ट्रपति, (1) श्री लोकेश एच. डी. और (2) श्री डी. श्रीधर को विदेश व्यापार महानिदेशालय में सहायक महानिदेशक, विदेश व्यापार (भारतीय व्यापार सेवा के समूह क, ग्रेड-III) के रूप में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 14.03.2007 (पूर्वाह्न) से, जिस तारीख से उन्होंने विदेश व्यापार महानिदेशालय में पदभार सम्भाला है, नियुक्त करते हैं।

2. उक्त नियुक्ति पर, समय-समय पर यथासंशोधित, भारतीय व्यापार सेवा (समूह क) नियमावली, 1977 और समसंख्यक नियुक्ति पत्र दिनांक 14.02.2007 में उल्लिखित अन्य शर्तें लागू होंगी।

3. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

मुकेश भटनागर, संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2007

सं. 5/2007 (फा. सं. 6/2366/2005-मा.सं.विकास अ.-I/1540)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के कार्यालय आदेश सं. 16/2007 दिनांक 9 मार्च, 2007 के परिणामस्वरूप श्री योगराज, स्थाई सहायक (के.स.से.) ने तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2007 तक अथवा पद नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 06.03.2007 (पूर्वाह्न) से विदेश व्यापार विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अशोक कुमार अरोड़ा, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 7/2007 (फा. सं. 6/2364/2005-मा.सं.विकास अ.-I/1549)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के कार्यालय आदेश सं. 16/2007 दिनांक 9 मार्च, 2007 के परिणामस्वरूप श्री श्याम लाल-II, स्थाई सहायक (के.स.से.) ने तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2007 तक अथवा पद नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 06.03.2007 (पूर्वाह्न) से विदेश व्यापार विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अशोक कुमार अरोड़ा, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

सं. 6/2007 (फा. सं. 6/2360/2005-मा.सं.विकास अ.-I/1559)--वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग के कार्यालय आदेश सं. 16/2007 दिनांक 9 मार्च, 2007 के परिणामस्वरूप श्रीमती अमरजीत सरोआ, स्थाई सहायक (के.स.से.) ने तदर्थ आधार पर दिनांक 30.06.2007 तक अथवा पद नियमित आधार पर भरे जाने तक अथवा अगले आदेशों तक जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में 06.03.2007 (पूर्वाह्न) से विदेश व्यापार विकास अधिकारी का पदभार ग्रहण कर लिया है।

अशोक कुमार अरोड़ा, उप महानिदेशक, विदेश व्यापार

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2007

सं. ए-60011/29/2005-स्थापना--दिनांक 10.02.2006 की समसंख्यक अधिसूचना के अधिक्रमण में और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) के अनुसरण में श्री पी. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में अपील प्राधिकारी के रूप में पदनामित किया जाता है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. ए-12011/10/2003-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 01.03.2007 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 5/8/2006-सीएस-III के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में नियमित स्टेनो ग्रेड 'ग' श्री के. एन. कोहली (चयन सूची 1990) को दिनांक 14.03.2007 (पूर्वाह्न) से दिनांक 30.06.2007 तक और अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,000/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर स्टेनो ग्रेड 'क और ख' (विलयित) के पद पर नियुक्त करते हैं।

केवल कृष्ण, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 16 मार्च 2007

सं. ए-12025/166/2004-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. नव ज्योति बर्मन को दिनांक 28.11.2006 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. नव ज्योति बर्मन को सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डा. नव ज्योति बर्मन दो वर्ष की परीक्षा पर रहेंगे।

माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 21 मार्च 2007

सं. ए-12025/197/94-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. एस. के. वधान को दिनांक 21.09.1994 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 2200-4000/- रुपये (पूर्व संशोधित) वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. एस. के. वधान को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

माया प्रकाश, अवर सचिव

सं. ए-12025/75/2001-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर, डा. नम्रता कुमारी को दिनांक 02.09.2002 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डा. नम्रता कुमारी को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, पटना के अधीन चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है।

माया प्रकाश, अवर सचिव

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 मार्च 2007

सं. ए-32014/2/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री टी. डी. प्रशांत राव, वैयक्तिक सहायक का नाम विभागीय परीक्षा कोट में वर्ष 2004 की चयन सूची में शामिल कर लिए जाने के परिणामस्वरूप उन्हें दिनांक 06.03.2007 (पूर्वाह्न) से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी के पद पर नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में श्री टी. डी. प्रशांत राव, की नियुक्ति श्री कैलाश चन्द्र और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य द्वारा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई रिट याचिका (सी) संख्या : 13245-60/2005 के अध्यक्षीन होगी।

पी. जी. कलाधरण, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 23 मार्च 2007

सं. 4-2/2007-बागवानी-II--राष्ट्रपति, श्री बी. के. संकरन, सचिव, नारियल विकास बोर्ड (कृषि एवं सहकारिता विभाग), कोच्चि को सी. सी. एस. (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत दिनांक 1 अप्रैल, 2007 (पूर्वाह्न) से सरकारी सेवा से स्वैच्छिक आधार पर सेवानिवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं।

एस. आर. गोयल, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 4 जनवरी 2007

सं. ए-12022/9/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री ए. भट्टाचार्य, भा.प्र.से. (गुजरात : 80), उप महानिदेशक, लोक कार्यक्रम एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद् (कपार्ट) को दिनांक 18.12.2006 (अपराह्न) से केन्द्र में उनकी पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति की शेष अवधि के लिए अर्थात् दिनांक 05.09.2009 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पार्ष्विक स्थानांतरण आधार पर पेयजल आपूर्ति विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. बवेजा, अवर सचिव

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 मार्च 2007

सं. ए-12022/10/2006-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्री बाल कृष्ण पांडा, आई.ओ.एफ.एस (88) को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू) के निजी सचिव के रूप में निदेशक स्तर पर दिनांक 28.02.2007 (अपराह्न) से दिनांक 20.08.2009 तक मंत्री के निजी सचिव को स्वीकार्य सात वर्ष के संयुक्त कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अथवा निजी सचिव के रूप में उनके कार्यकाल की समाप्ति या अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त करते हैं। केन्द्र में उनका कार्यकाल दिनांक 20.08.2002 (अपराह्न) से आरम्भ होता है।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

दिनांक 6 मार्च 2007

सं. ए-19011/1/2007-स्थापना-I--राष्ट्रपति, श्रीमती शांता शीला नायर, आई.ए.एस. (टी. एन. : 73) को दिनांक 5 मार्च, 2007 के पूर्वाह्न से पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय में सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

महाबीर प्रसाद, अवर सचिव

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
(दूरसंचार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 10 अक्टूबर 2006

सं. ए-32014/1/2006-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के नियमित सहायक, श्रीमती एन. डी. शर्मा को 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर दिनांक 3 अक्टूबर, 2006 के पूर्वाह्न से, प्रारम्भ में दिनांक 31.12.2006 तक की अवधि के लिए अनुभाग अधिकारी के रूप में इसी विभाग में नियुक्त करते हैं।

2. अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ पदोन्नति/नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्यक्षीन है :--

- (क) तदर्थ नियुक्ति से नियुक्त व्यक्ति को इस ग्रेड में अनिश्चित काल तक बने रहने अथवा नियमित नियुक्ति हेतु चुनिंदा सूची में नाम शामिल करने के लिए अथवा केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का अधिकार प्रदान नहीं करेगी;
- (ख) तदर्थ व्यवस्था तब तक जारी रहेगी जब तक वरिष्ठता कोट और/अथवा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीएफ) के माध्यम से अनुभाग अधिकारी ग्रेड में नियमित अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं हो जाता। यदि तदर्थ आधार पर नियुक्त व्यक्ति इन दोनों श्रेणियों में से किसी भी नियमित नियुक्ति के लिए अर्हता प्राप्त नहीं कर पाती है, तो उन्हें ऐसे नियमित अधिकारी के आ जाने पर सहायक ग्रेड में प्रत्यावर्तित कर दिया जाएगा।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 28 नवम्बर 2006

सं. एफ-36-1/2004-प्रशा.-I--स्थापना अधिकारी के कार्यालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 14.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. 24/2/2004-ईओ (एमएम-1) के अनुसार माननीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (डॉ. शकील अहमद) के निजी सचिव, श्री हुकुम सिंह मीणा, आईएएस (बीएच : 92) को दिनांक 21.11.2006 से उनके पांच वर्ष के कार्यकाल अर्थात् दिनांक 27.07.2009 तक की शेष अवधि के लिए अथवा उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करना बंद कर देने अथवा अगले आदेश किए जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, निदेशक के स्तर पर पुनः पदनामित किया जाता है।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 29 दिसम्बर 2006

सं. पीएफ-535/प्रशा.-I--श्री ए. के. विश्वास, उप सचिव, दूरसंचार विभाग अधिवर्षिता की आयु पूरी होने पर दिनांक 31 दिसम्बर, 2006 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

दिनांक 28 फरवरी 2007

सं. पीएफ-4426/प्रशा.-I--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर श्री रेवा धर छद्गुली, निजी सचिव, दूरसंचार विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2007 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएंगे।

टी. कुन्दवी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 मार्च 2007

सं. 07/07 (फा. सं. 2/6/07-प्रशा.-II)--राष्ट्रपति, श्री अनिल कुमार, भा.प्र.से. (नागालैंड : 1976) को, दिनांक 15 मार्च, 2007 के अपराह्न से, अगले आदेशों तक विद्युत मंत्रालय में अपर सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं।

आर. सी. अरोड़ा, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2007

सं. 7/8/2006-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, श्री विनोदजीत मल्होत्रा, सहायक जल मौसम विज्ञानी को पदोन्नति पर केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 8,000-275-13,500/- रुपये के वेतनमान में दिनांक 11.12.2006 के पूर्वाह्न से जल मौसम विज्ञानी (वैज्ञानिक ख) (समूह 'क' पद) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

दिनांक 8 मार्च 2007

सं. 7/1/2006-सीजीडब्ल्यूबी--राष्ट्रपति, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में क्षेत्रीय निदेशक, श्री ए. डी. जोसफ को पदोन्नति पर दिनांक 01.11.2006 के पूर्वाह्न से 18,400-500-22,400/- रुपये के वेतनमान में सदस्य (समूह 'क' पद) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सोहन एस. सैनी, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2007

सं. 1/2007 (फा. सं. 25/2(1)/2006-स्थापना-I)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2005 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री संजीव कुमार को दिनांक 28.02.2007 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक

निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री संजीव कुमार कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरप्रताप सिंह, अवर सचिव

सं. 2/2007 (फा. सं. 25/2(5)/2006-स्थापना-I)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2005 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री मनोज कुमार मीना को दिनांक 02.03.2007 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री मनोज कुमार मीना कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

हरप्रताप सिंह, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च 2007

सं. 3/2007 (फा. सं. 25/3(11)/2005-स्थापना-I)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा, 2004 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति, श्री नरेन्द्र सिंह को दिनांक 28.02.2007 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (ग्रुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर 8,000-13,500/- रुपये के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री नरेन्द्र सिंह कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीवीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

श्रम और रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 मार्च 2007

सं. ए-32012/04/2004-आईएसएच.-II--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उप-महानिदेशक, खान सुरक्षा के पद पर उनके नामों के आगे दी गई तारीख से एवं अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त करते हैं :--

क्र.	अधिकारी का नाम	खान सुरक्षा उपमहानिदेशक के ग्रेड में नियुक्ति की तारीख
1.	श्री राहुल गुहा	30.11.2004
2.	श्री सतीश पुरी	06.12.2004

एम. एस. आजाद, अवर सचिव

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 26th March 2007

No. RS/3(i)/2007/26-Perl.—The Hon'ble Chairman, Rajya Sabha has been pleased to appoint Shri Chandra Bhan Rai, Under Secretary in the Rajya Sabha Secretariat to the grade of Deputy Secretary on ad-hoc basis in that Secretariat, with effect from the forenoon of the 23rd March, 2007, until further orders.

2. Shri Jimba Giachho Negi, who was appointed to officiate as Deputy Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3(i)/2007/15-Perl. dated 5th February, 2007 has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 23rd March, 2007, until further orders.

3. The above appointments would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

No. RS/3(i)/2007/27-Perl.—Shri Mangat Rai Verma, who was earlier appointed to officiate as Under Secretary on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3(i)/2006/77-Perl. dated 30th October, 2006 has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 23rd March, 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

No. RS/3(i)/2007/28-Perl.—Shri Vijay Kumar, who was earlier appointed to officiate as Legislative/Committee/Executive/Protocol Officer on ad-hoc basis vide Notification No. RS/3(i)/2006/78-Perl. dated 30th October, 2006 has now been appointed on regular basis in that grade with effect from the forenoon of the 23rd March, 2007, until further orders.

2. The above appointment would be subject to the orders of the Delhi High Court at the time of final disposal of Writ Petition No. 3025/88.

AGNES MOMIN GEORGE, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 12th March 2007

No. A-44011/4/2000-Admn.I.—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. 11016/5/2000-IES dated 07.03.2007, Shri R. C. Dey, Junior Administrative Grade Officer of IES working as Deputy Adviser in PEO (HQR.), Planning Commission is granted Non-Functional Selection Grade of the Service in the scale

3-261/07

of pay of Rs. 14,300-400-18,300 with effect from 01.02.2007.

2. Consequent on being placed in NFSG of IES, he is designated as Director by upgrading the post of Deputy Adviser as personal to him.

3. The grant of NFSG to Shri R. C. Dey is subject to the final order in Civil Appeal No.(s) 1366-1367 of 2004 pending in the Hon'ble Supreme Court in the case of Shri Nagesh Singh & Another Vs. Shri B. D. Viridi & Ors.

ANIL MALHOTRA, Dy. Secy.

New Delhi, the 15th March 2007

No. A-12025/01/2005-Admn.II.—The President is pleased to appoint S/Shri Indresh Chandra Kala and P. V. C. V. Prabhu Das, Statistical Officers, Subordinate Statistical Services Division, Ministry of Statistics and Programme Implementation, New Delhi, as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/—, on purely ad-hoc deputation basis, for a period of one year with effect from 13.03.2007 (FN), or till the post is filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest.

N. K. SHARMA, Under Secy.

No. A-43014/01/2006-Admn.II.—Consequent upon his promotion to Grade-IV of IES and posting as Research Officer in the Planning Commission vide Department of Economic Affairs Order No. 11016/3/2004-IES dated 18.01.2006, Shri S. Roy has assumed charge as Research Officer in the Planning Commission in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/—, with effect from 12th March, 2007 (FN).

N. K. SHARMA, Under Secy.

The 21st March 2007

No. A-19015/1/95-Adm.V.—In pursuance of Department of Personnel & Training, Ministry of Personnel, P. G. and Pensions Order No. 5/1/2007-CS.I (Desk) dated 9th March, 2007, the services of Shri K. S. Mahajan, Section Officer, Planning Commission are placed at the disposal of the Department of Higher & Secondary Education with effect from the forenoon of 21st March, 2007 for appointment as Under Secretary (Grade I of CSS) purely on ad-hoc basis.

N. K. SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 22nd March 2007

No. I-11014/10/2006-IPS.IV.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 5 of the Indian

Police Service (Cadre) Rules, 1954, and with the concurrence of the Government West Bengal and the UT Division of the Ministry of Home Affairs, the Central Government hereby transfers Shri Madhur Verma, IPS (WB: 2005), from the IPS cadre of West Bengal to the IPS cadre of AGMUT on the ground of his marriage with Ms. Niharika Rai, IAS (AGMUT: 2005).

RAJINDER KUMAR, Section Officer

**MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN
REGION**

New Delhi-110011, the 13th March 2007

No. 1/14/2003-Admn.—The President is pleased to appoint Shri B. Vanlalvawna, IFS (98) as Private Secretary to the Minister of Panchayati Raj, Youth Affairs and Sports and Minister of Development of North Eastern Region (Shri Mani Shankar Aiyar), at the level of Deputy Secretary w.e.f. 12.03.2007 (Forenoon) on his transfer from Ministry of External Affairs, for the period of five years from the date of his taking over charge or till he ceases to function as Private Secretary to Minister or until further orders, whichever event occurs earlier.

S. K. NAYYAR, Dy. Secy.

**MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES
AND PENSIONS**

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 13th March 2007

No. A-32013/2/2007-Ad.I(G).—The President is pleased to appoint Shri K. Suresh Kumar, a permanent Section Officer of CSS, as Under Secretary in the pay scale of Rs. 10,000-325-15,200/- on ad hoc basis, in Department of Personnel & Training with effect from the forenoon of 31st January, 2007, until further orders.

2. The ad hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade I.

N. K. PUSHPAKARAN, Dy. Secy.

New Delhi, the 14th March 2007

No. 14015/05/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 containing the name of Shri Alok Awasthi (Date of Birth: 17.07.1959) a member of Non-State Civil Service of the State of Chhattisgarh prepared by the Selection Committee in its meetings held on 28th December, 2006, towards

filling up one (01) existing vacancy in the Chhattisgarh cadre of Indian Administrative Service, during 2006.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/05/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Shri Alok Awasthi, a Non-State Civil Service officer of Chhattisgarh to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate him to the Chhattisgarh Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/19/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (1) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection) Regulations, 1997, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 containing the names of the following members of Non-State Civil Service of the State of Rajasthan prepared by the Selection Committee in its meeting held on 27th and 28th December, 2006, towards filling up four (04) existing vacancies in the Rajasthan cadre of Indian Administrative Service, during 2006:—

Select List 2006

Sl. No.	Name	Date of Birth
	S/Shri	
1.	S. S. Bissa	11.07.1952
2.	Vinod Pandya	29.06.1952
3.	Onkar Singh	13.07.1956
4.	Arjun Ram Meghwal (SC)	20.12.1953

2. The inclusion of the names of above officers in the Select List of 2006 shall be subject to the outcome of DBCWP No. 10050/06 (Dr. Kalyan Sahai Sharma Vs. UOI & Others) pending before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/19/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (2) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 8 of the Indian Administrative Service (Appointment by Selection)

Regulations, 1997 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following Non-State Civil Service officers of Rajasthan to the Indian Administrative Service on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Rajasthan Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name
	S/Shri
1.	S. S. Bissa
2.	Vinod Pandya
3.	Onkar Singh
4.	Arjun Ram Meghwal (SC)

2. The appointment of the above officers shall be subject to the outcome of DBCWP No. 10050/06 (Dr. Kalyan Sahai Sharma Vs. UOI & Others) pending before the Hon'ble High Court of Rajasthan, Jaipur Bench.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/16/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 for the Nagaland Cadre, containing the names of the following State Civil Service officers of the State of Nagaland, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 20 December, 2006, towards filling up four (04) vacancies during 2006 in the Indian Administrative Service:—

Select List 2006

Sl. No.	Name of the Officer	Date of Birth
	S/Shri	
1.	Norman Putsure (ST)	01.01.1954
2.	B. Thawang Konyak (ST)	07.12.1952
3.	L. Daniel Longchar (ST)	01.12.1952
4.	Smt. Meilemla Pongener (ST)	01.03.1953

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/16/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint the following members of the State Civil Service

of Nagaland to the Indian Administrative Service against the vacancies of the year 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Nagaland Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954:—

Sl. No.	Name
	S/Shri
1.	Norman Putsure (ST)
2.	B. Thawang Konyak (ST)
3.	L. Daniel Longchar (ST)
4.	Smt. Meilemla Pongener (ST)

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/03/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 for the Meghalaya segment of the Joint Assam-Meghalaya Cadre, containing the name of Smt. Arlene M. Sangma (ST), (Date of Birth: 07.12.1955), a member of State Civil Service of the State of Meghalaya, prepared by the Selection Committee in its meeting held on 26th October, 2006, towards filling up one (01) vacancy during 2006 in the Indian Administrative Service.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/03/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint Smt. Arlene M. Sangma (ST), a member of the State Civil Service of Meghalaya to the Indian Administrative Service against the vacancy for the year 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate her to the Meghalaya segment of the Joint Assam-Meghalaya Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

The 22nd March 2007

No. 14015/23/2006-AIS(I)-A.—In terms of the provisions contained in Sub-regulation (3) of Regulation 7 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955, the Union Public Service Commission has approved the Select List of 2006 for the Uttarakhand Cadre, containing the names of S/Shri Suverdhan (SC) (Date

of Birth: 19.06.1953) and Darban Singh Garbiyal (ST) (Date of Birth: 02.02.1957), members of State Civil Service of the State of Uttarakhand, prepared by the Selection Committee in its meetings held on 30th December, 2006, towards filling up 02 (two) vacancies during 2006 in the Indian Administrative Service.

JAGAN LAL, Under Secy.

No. 14015/23/2006-AIS(I)-B.—In exercise of the powers conferred by Sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Administrative Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1955 and Rule 3 of the Indian Administrative Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to appoint S/Shri Suverdhan (SC) and Darban Singh Garbiyal (ST), members of the State Civil Service of Uttarakhand to the Indian Administrative Service against the vacancies for the year 2006 on probation with immediate effect until further orders and to allocate them to the Uttarakhand Cadre, under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954.

JAGAN LAL, Under Secy.

New Delhi, the 22nd March 2007

No. 23012/02/2007-AIS-III.—Smt. Avantika Gautam, IAS (AM: 2003), appointed to the Indian Administrative Service on the basis of the Civil Services Examination held in 2002 and borne on the cadre of Assam Meghalaya, has been permitted to change her name from "Avantika Gautam" to "Avantika Singh Aulakh". She will accordingly be recognised as Smt. Avantika Singh Aulakh for all official purposes.

G. C. PANDEY, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 8th January 2007

No. Q/PA-I/6/2007.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 02nd January, 2007:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Sh. Rudrendra Tandon	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. The appointment of the above officer to Grade-IV of the IFS w.e.f. 02.01.2007 (FN) is on the basis of a Proforma promotion in terms of O. M. No. 8/4/84-Estt. (Pay-I) dated the 15th July, 1985 of the Ministry of Personnel & Training.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 14th February 2007

No. Q/PA-I/10/2007.—The President is pleased to appoint the following officer presently in Junior Administrative Grade (JAG) of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-IV of the Service with effect from the forenoon of 1st January, 2007:—

Sl. No.	Name of the Officer	Present Grade	Grade after Promotion
1.	Sh. Yogeshwar Sangwan	JAG of IFS	Grade-IV of IFS

2. On promotion to Grade-IV of IFS, the officer relinquished charge of the post in Junior Administrative Grade (JAG) of IFS on the forenoon of 01.01.2007 and assumed charge of the post in Grade-IV of the IFS, with effect from forenoon of the same date.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 1st March 2007

No. Q/PA-I/11/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri Nauluk Tuan Khankhup, Ambassador of India to Democratic People's Republic of Korea, Pyongyang, retired from Grade-III of the Indian Foreign Service on the afternoon of 28.02.2007.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

No. Q/PA-I/12/2007.—On attaining the age of superannuation, Shri Nirupam Sen, Ambassador/Permanent Representative of India to the United Nations, PMI, New York, retired from Grade-I of the Indian Foreign Service on the afternoon of February 28, 2007.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

The 8th March 2007

No. Q/PA-I/16/2007.—The President is pleased to appoint Smt. Lakshmi Murdeshwar Puri, an officer in Grade-II of the Indian Foreign Service (IFS) to officiate in Grade-I of the Service with effect from the forenoon of 23rd February, 2007.

2. The appointment of Smt. Lakshmi Murdeshwar Puri to Grade-I of the IFS w.e.f. 23.02.2007 (FN) is on the basis of a Proforma promotion in terms of O. M. No. 8/4/84-Estt. (Pay-I) dated the 15th July, 1985 of the Ministry of Personnel & Training.

ARINDAM BAGCHI, Dy. Secy. (FSP)

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS

New Delhi, the 22nd March 2007

No. 01(F. No. 3/36/2006-RE).—In continuation of this Department's Notification F. No. 5/37/CM/2000 dated

2nd March, 2004, the President is pleased to extend the deputation term of Shri S. J. Parmar, Deputy Legislative Counsel (Gujrati), Official Languages Wing, Legislative Department, Ministry of Law & Justice, New Delhi in the post of Registrar (Rs. 12,000-375-16,500/-) in the Securities Appellate Tribunal, Mumbai, on deputation basis for a further period of one year w.e.f. 24.03.2007 or till Shri Parmar is absorbed in the post of Registrar in the Securities Appellate Tribunal on permanent basis, whichever is earlier.

SURJIT SINGH, Director (UTI & JPC)

(DEPARTMENT OF EXPENDITURE)

New Delhi, the 9th March 2007

No. A-12026/5/2005-Ad.I.—The President is pleased to appoint Smt. Meena Agarwal, IRAS (1981) as Joint Secretary (Pers.) in the Ministry of Finance, Department of Expenditure, in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- with effect from the afternoon of the 7th March, 2007 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

MEETALI GHOSH, Under Secy.

MINISTRY OF COMPANY AFFAIRS

New Delhi-110001, the 2nd March 2007

No. PFG(928)/07-Ad.I.—In pursuance of Department of Expenditure, Office of Chief Adviser Cost Office Order No. 22012/2/2007/CAC dated 29th January, 2007 Shri G. G. Mitra, Deputy Director has assumed the charge of Deputy Director, in the Ministry of Company Affairs with effect from the forenoon of 15.02.2007.

N. K. VIG, Under Secy.

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE

New Delhi, the 19th March 2007

No. 04/2007(F. No. A-12025/2/2004/HRD-I/1449).—Consequent upon their selection by the Union Public Service Commission, on the basis of the results of the Civil Services Examination 2005, and subsequent nomination by Department of Personnel & Training to the Indian Trade Service Cadre, the President is pleased to appoint (i) Shri Lokesh H. D., and (ii) Shri D. Sridhar as Assistant Director General of Foreign Trade (Group A, Grade III of Indian Trade Service) in the Directorate General of Foreign Trade, in the pay scale of Rs. 8,000-275-13,500/- with effect from the forenoon of 14.03.2007 (Forenoon) the date on which he reported for joining the service in the Directorate General of Foreign Trade.

2. The said appointment shall be governed by the Indian Trade Service (Group A) Rules, 1977, as amended from time

to time and other terms & conditions mentioned in the offer of appointment letter of even No. dated 14.02.2007.

MUKESH BHATNAGAR, Jt. Director General of Foreign Trade

New Delhi, the 19th March 2007

No. 5/2007 (F. No. 6/2366/2005/HRD-I/1540).—Consequent upon the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce Office Order No. 16/2007 dated 9th March, 2007 Shri Yog Raj, Permanent Assistant (CSS) has assumed the charge of the post of Foreign Trade Development Officer on ad-hoc basis upto 30.06.2007 or until the posts are filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier in this Directorate with effect from 06.03.2007 (FN) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-.

ASHOK KUMAR ARORA, Dy. Director General of Foreign Trade

No. 7/2007 (F. No. 6/2364/2005/HRD-I/1549).—Consequent upon the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce Office Order No. 16/2007 dated 9th March, 2007 Shri Shyam Lal-II, Permanent Assistant (CSS) has assumed the charge of the post of Foreign Trade Development Officer on ad-hoc basis upto 30.06.2007 or until the posts are filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier in this Directorate with effect from 06.03.2007 (FN) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-.

ASHOK KUMAR ARORA, Dy. Director General of Foreign Trade

No. 6/2007 (F. No. 6/2360/2005/HRD-I/1559).—Consequent upon the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce Office Order No. 16/2007 dated 9th March, 2007 Smt. Amarjeet Saroa, Permanent Assistant (CSS) has assumed the charge of the post of Foreign Trade Development Officer on ad-hoc basis upto 30.06.2007 or until the posts are filled up on regular basis or till further order, whichever is earlier in this Directorate with effect from 06.03.2007 (FN) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/-.

ASHOK KUMAR ARORA, Dy. Director General of Foreign Trade

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 6th March 2007

No. A-60011/29/2005-Estt.—In supersession of Notification of even number dated 10-02-2006 and in pursuance of Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri P. K. Sinha, Joint Secretary & Financial Adviser is designated as the Appellate Authority in the Ministry of Petroleum & Natural Gas.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD &
PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 23rd March 2007

No. A-12011/10/2003-Estt.—In pursuance of DoP&T's O. M. No. 5/8/2006-CS.II dated 01.03.2007, the President is pleased to promote Shri K. N. Kohli a regular Steno. Grade 'C' of Select List 1990 in the Department of Consumer Affairs as Steno. Grade 'A&B' (Merged) on adhoc basis in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- w.e.f. 14.03.2007 (FN) to 30.06.2007 and until further orders, whichever is earlier.

KEWAL KRISHAN, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(DEPARTMENT OF HEALTH)

New Delhi-110011, the 16th March 2007

No. A-12025/166/2004-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Navajyoti Barman to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 28.11.2006 until further orders. Dr. Navajyoti Barman is posted as Medical Officer under Safdarjang Hospital, New Delhi. Dr. Navajyoti Barman shall be on probation for two years.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 21st March 2007

No. A-12025/197/94-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. S. K. Badhan to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 2,200—4,000/- (Pre-revised) in a temporary capacity with effect from forenoon of the 21.09.94 until further orders. Dr. S. K. Badhan is posted as Medical Officer under Government of National Capital Territory of Delhi.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

No. A-12025/75/2001-CHS.I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Namrata Kumari to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- in a temporary capacity with effect from forenoon of the 02.09.2002 until further orders. Dr. Namrata Kumari is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Patna.

Smt. MAYA PRAKASH, Under Secy.

(DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE)

New Delhi, the 12th March 2007

No. A-32014/2/2006-E.I.—Consequent upon inclusion of his name in the Select List for the year 2004 against Departmental Examination Quota, the President is pleased to appoint Shri T. D. Prashanth Rao, Personal Assistant as Section Officer in the Ministry of Health & Family Welfare on regular basis w.e.f. 06.03.2007 (FN).

The appointment of Shri T. D. Prashanth Rao to the grade of Section Officer of CSS shall be subject to the outcome of the Writ Petition (C) No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander & Ors. Vs Union of India & Ors. before the Hon'ble Delhi High Court.

P. G. KALADHARAN, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION)

New Delhi, the 23rd March 2007

No. 4-2/2007-Hort.II.—The President is pleased to allow Shri V. K. Sankaran, Secretary, Coconut Development Board (Department of Agriculture & Cooperation), Cochin, to retire voluntarily from Government Service with effect from 1st April, 2007 (FN) under Rule 48 of CCS (Pension) Rules, 1972.

S. R. GOYAL, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 4th January 2007

No. A-12022/9/2006-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri A. Bhattacharya, IAS (GJ: 80), Deputy Director General, Council for advancement of People's Action & Rural Technology (CPART) as Joint Secretary in the Department of Drinking Water Supply, on lateral transfer basis, with effect from the afternoon of 18.12.2006 for the balance period of his central deputation of five years i.e. upto 05.09.2009 or until further orders, whichever event takes place earlier.

H. C. BAVEJA, Under Secy.

New Delhi-110001, the 1st March 2007

No. A-12022/10/2006-Estt.I.—The President is pleased to appoint Shri Bala Krishna Panda, IOFS (88) as Private Secretary to the Minister of State for Rural Development (Shri Chandra Sekha Sahu) at the level of Director w.e.f. 28.02.2007 (AN) and upto 20.08.2009 for the balance period of combined tenure of seven years as admissible to the Private Secretary to the Minister or till he ceases to function as Private Secretary or until further order, whichever event occurs the earliest. He counts his tenure at the centre with effect from 20.08.2002 (AN).

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

The 6th March 2007

No. A-19011/1/2007-Estt.I.—The President is pleased to appoint Smt. Santha Sheela Nair, IAS (TN: 73) as Secretary, Department of Drinking Water Supply, Ministry of Rural Development with effect from the forenoon of 5th March 2007.

MAHA BIR PERSHAD, Under Secy.

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & IT
(DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS)

New Delhi-110001, the 10th October 2006

No. A-32014/1/2006-Admn.I.—The President is pleased to appoint Smt. N. D. Sharma, a regular Assistant of CSS cadre of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications and Information Technology as Section Officer on adhoc basis in this Department in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from the forenoon of the 3rd October, 2006, initially for the period upto 31.12.2006.

2. Adhoc promotion/appointment to the grade of Section Officer is subject to the following conditions:—

- (a) The adhoc appointment shall not confer on the appointee any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officer's Grade of CSS;
- (b) Adhoc arrangements may continue till regular candidate in Section Officer Grade are available either through seniority quota and/or Limited Departmental Competitive Examination (LDCE). In the event of the adhoc appointee not qualifying for regular appointment in either of these two categories, she will be reverted to the Assistant's grade on availability of such regular officer.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 28th November 2006

No. F-36-1/2004-Admn.I.—In pursuance of EO Office, Department of Personnel & Training OM No. 24/2/2004-EO (MM.I) dated 14.11.2006, Shri Hukum Singh Meena, IAS (BH: 92), Private Secretary to the Hon'ble Minister of State for Communications & IT (Dr. Shakeel Ahmad) is redesignated at the level of Director w.e.f. 21.11.2006 for the balance period of his five years tenure i.e. upto 27.07.2009 or till he ceases to function as PS to the Minister of until further orders, whichever event takes place earlier.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 29th December 2006

No. PF-535/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri A. K. Biswas, Deputy Secretary,

Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 31st December, 2006.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

The 28th February 2007

No. PF-4426/Admn.I.—On attaining the age of superannuation, Shri Reba Dhar Chhadguli, Private Secretary, Department of Telecommunications shall stand retired from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2007.

T. KUNDHAVI, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 16th March 2007

No. 7/07(F. No. 2/6/2007-Admn.II).—The President is pleased to appoint Shri Anil Kumar, IAS (NL: 1976), as Additional Secretary in the Ministry of Power with effect from the afternoon of 15th March, 2007 till further orders.

R. C. ARORA, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 5th March 2007

No. 7/8/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri Vinodjit Malhotra, Assistant Hydrometeorologist to the post of Hydrometeorologist (Sc. B) (Group 'A' post) in the Central Ground Water Board by promotion in the scale of pay of Rs. 8,000-275-13,500/- w.e.f. the forenoon of 11.12.2006.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

The 8th March 2007

No. 7/1/2006-CGWB.—The President is pleased to appoint Shri A. D. Joseph, Regional Director to the post of Member (Group 'A' post) in the Central Ground Water Board by promotion in the scale of pay of Rs. 18,400-500-22,400/- w.e.f. the forenoon of 01.11.2006.

SOHAN S. SAINI, Under Secy.

New Delhi, the 20th March 2007

No. 1/2007 (F. No. 25/2(1)/2006-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2005 the President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 28.02.2007 (FN).

2. Shri Sanjeev Kumar will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARPARTAP SINGH, Under Secy.

No. 2/2007 (F. No. 25/2(5)/2006-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2005 the President is pleased to appoint Shri Manoj Kumar Meena to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-‘A’) Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 02.03.2007 (FN).

2. Shri Manoj Kumar Meena will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

HARPARTAP SINGH, Under Secy.

New Delhi, the 23rd March 2007

No. 3/2007 (F. No. 25/3(11)/2005-E.I.—On the results of the Engineering Services Examination, 2004 the President is pleased to appoint Shri Narendra Singh to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering

(Group-‘A’) Service in the scale of Rs. 8,000—13,500/- in the Central Water Commission with effect from 28.02.2007 (FN).

2. Shri Narendra Singh will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 22nd March 2007

No. A-32012/04/2004-ISH.II.—The President is pleased to appoint the following officers to the post of Deputy Director General of Mines Safety in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from the date shown against their names and until further orders:—

Sl. No.	Name of the Officer	Date of appointment in the Grade of Deputy Director General of Mines Safety
1.	Shri Rahul Guha	30.11.2004
2.	Shri Satish Puri	06.12.2004

M. S. AZAD, Under Secy.